

जनता पर बहुत पड रहा है। इसलिए क्या सरकार यह उचित समझती है कि इस तरफ भी विकास कार्यक्रम में तेजी लायी जाये, और क्या इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

श्री एस० एन० मिश्र : उस तरफ विकास के काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं यह तो हम लोगों के सामने कोई मुख्य कारण नहीं हो सकता कि इधर भी विकास कार्यों में तेजी लाई जाये। इधर विकास के कार्य स्वतः तेजी से होने चाहिये।

श्री भक्त बर्षान : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात भी आयी है कि सीमावर्ती इलाकों में योजनायें इसलिए अधिक सफल नहीं हो रही हैं क्योंकि वहां पर बाहर के आदमियों को नियुक्त किया गया है और स्थानिय कर्मचारियों को बहुत कम रखा गया है जो कि वहां के शीत में और वहां की विशेष परिस्थितियों में काम करने के अम्यस्त है? क्या सरकार इस विषय पर विचार कर रही है कि जो व्यक्ति वहां की परिस्थितियों में काम कर सकते हैं उन्हीं को वहां नियुक्त किया जाये?

श्री एस० एन० मिश्र : इन कठिनाइयों की तरफ यदि माननीय सदस्य सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बी० डी० पांडे : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: I am sorry the hon. Member missed the opportunity. If other hon. Members do not get up, I give more opportunity to the sponsor of the question. After two supplementaries, I look round and if no hon. Member stands up, I allow the sponsor of the question the last question. Thereafter the hon. Member gets up.

KANNADA NEWS BROADCASTS

*1327. **Shri Gadilingana Gowd :** Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state whether it is a fact that the paid critics for Kannada news from Bombay-Karnatak area have criticised in their reports the translation of the sub-editors of Kannada news unit?

The Minister of Information and Broadcasting (Dr. Keskar) : Some of the critics from the Bombay-Karnatak area have pointed out a few instances which are based mainly upon

the difference between Kannada as spoken in Bombay-Karnatak and in Mysore.

Shri Gadilingana Gowd : May I know what action has been taken by Government to rectify this defect?

Dr. Keskar : It is very difficult to resolve this difference, because there is a slight difference between Kannada, as it is spoken in the Bombay-Karnatak side, and in Mysore. In the news bulletins that we issue in Kannada, we try to strike a mean. But it is obvious that in minor matters some people might consider a particular expression as incorrect or wrong, and others might consider it all right.

Shri Kamath : Which is better? Bombay, Kannada or Mysore?

Shri Gadilingana Gowd : Is it a fact that Karnatak Press and the people of the area concerned have complained about the bad reading of male news readers? If so, what action has been taken by Government to give better listening facilities to the people?

Dr. Keskar : I have read the report of the critics to which the hon. Member has referred in his question. Many of them praise the bulletins we issue. But, as I have pointed out, in the case of certain expressions they feel that the expressions should have been different, while the Mysore critics think that they are the best. Really speaking, it is a question of difference of opinion between Mysore and Bombay-Karnatak.

VACCINES AND SERA

*1328. **Dr. Rama Rao :** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state :

(a) the steps Government have taken or propose to take to develop markets for Vaccines and Sera in countries like Egypt, Saudi Arabia, Iran, Malaya and Indonesia; and

(b) the surplus capacity in (i) Vaccines, and (ii) Sera during 1955-56?

The Minister of Commerce and Industry and Iron and Steel (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) There is no